

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]  
No. 562]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2007/पौष 3, 1929  
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2007/PAUSA 3, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

“आन्ध्र प्रदेश

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 786(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-खण्ड (1) और (2) तथा नियम 7 के उप-खण्ड (ग) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2007 है।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में, 'आन्ध्र प्रदेश' शीर्षक के लिए और उसके बाद आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद	170	
पद का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
सरकार के मुख्य सचिव	1	—
भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त	1	2
महानिदेशक, डा. मैरी चेन्ना रेड्डी, मानव संसाधन विकास संस्थान, आन्ध्र प्रदेश	1	2
सरकार के प्रधान सचिव	10	2
मुख्य चुनाव अधिकारी तथा सरकार के पदेन प्रधान सचिव	1	2
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2
आयुक्त	4	2
सरकार के सचिव	16	2
शर्करा आयुक्त तथा निदेशक	1	2
आयुक्त, राहत तथा सरकार के पदेन सचिव	1	2
आयुक्त, हथकरघा	1	2
ग्रामीण विकास आयुक्त	1	2

पद का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	पद का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
पंचायत राज आयुक्त	1	2	परियोजना अधिकारी, समेकित	21	2
आयुक्त, रोजगार एवं प्रशिक्षण	1	2	जनजातीय विकास अभिकरण/		
आयुक्त, महिला विकास एवं बाल कल्याण	1	2	परियोजना निदेशक, जिला		
उद्योग आयुक्त	1	2	ग्रामीण विकास अभिकरण/मुख्य		
आयुक्त, रेशम	1	2	कार्यपालक अधिकारी, जिला		
आयुक्त, जनजाति कल्याण	1	2	परिषद्		
यातायात आयुक्त	1	2	बंदोबस्त निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि रिकॉर्ड	1	2
राज्यपाल के सचिव	1	2	निदेशक, समाज कल्याण	1	2
मुख्य मंत्री के सचिव	1	2	संयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक कर)	1	2
आवासीय आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश	1	2	उपायुक्त (वाणिज्यिक कर)	2	2
भवन, नई दिल्ली			आयुक्त (वाणिज्यिक कर) के सचिव	1	2
आयुक्त, स्थायी निधि (एन्डोमेन्ट्स)	1	2	मुख्य राशनिंग अधिकारी	1	2
आयुक्त, सहयोग तथा सहकारी समितियों के पंजीयक	1	2	निदेशक, मद्य निर्माण शाला (डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज) तथा उत्पाद शुल्क आयुक्त के अपर सचिव	1	2
श्रम आयुक्त	1	2			
विभागीय पूछताछ आयुक्त	1	2	कुल	170	
आयुक्त-सह-निदेशक, नगर प्रशासन	1	2	2. उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व		68
संयुक्त आयुक्त, उत्पाद शुल्क (प्रवर्तन)	1	2	3. उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व		42
सरकार के अपर/संयुक्त/उप-सचिव	29	2	4. उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण रिजर्व		6
मुख्य आयुक्त, भूमि प्रशासन के सचिव	2	2	5. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद सं. 1, 2, 3 तथा 4 के 33-1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं)		95
आयुक्त, भूमि प्रशासन के अपर/संयुक्त सचिव	1	2	6. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ मद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से		28
कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट	23	2	7. सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद (मद सं. 1+2+3+4+6-5)		219
विशेष कलेक्टर	2	2	सीधी भर्ती पद		219
विशेष अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, शहरी, भूमि सीलिंग्स	1	2	पदोन्नति पद		95
संयुक्त कलेक्टर	23	2	कुल प्राधिकृत संख्या		314
उपायुक्त (उत्पाद शुल्क)	1	2			
आयुक्त (उत्पाद शुल्क) के सचिव	1	2			
सचिव, आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग	1	2			
निदेशक, सिविल आपूर्ति	1	2			
निदेशक, पर्यटन	1	2			

[फा. सं. 11031/01/2002-अ.भा.से.-II]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मूल विनियम सं. का.नि.आ. 3350 दिनांक 22-10-1955 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों के तहत संशोधित किए गए थे :-

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	663	29-06-1974
2.	1201	16-11-1974
3.	94	25-01-1975
4.	433	05-04-1975
5.	51अ	01-02-1977
6.	544अ	29-07-1977
7.	44	14-01-1978
8.	46	14-01-1978
9.	846	14-07-1978
10.	1237	14-10-1978
11.	289अ	10-05-1979
12.	616	24-07-1972
13.	412	07-06-1986
14.	765	20-09-1986
15.	646	02-09-1989
16.	647	02-10-1990
17.	755अ	15-12-1993
18.	573अ	13-07-1994
19.	319अ	31-03-1995
20.	304	22-07-1997
21.	171	09-05-2000

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC  
GRIEVANCES AND PENSIONS  
(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2007

**G.S.R. 786(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of sub-clause (1) and (2) of Rule 4 and sub-clause (c) of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 namely :—

1. (i) These regulations shall be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Ninth Amendment Regulations, 2007.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading 'Andhra Pradesh' and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted, namely :—

<b>"Andhra Pradesh"</b>		
<b>1. Senior Duty Posts under 170 the State Government</b>		
Name of the Post	Number of posts	Minimum tenure for posting (in years)
Chief Secretary to Government	1	—
Chief Commissioner of Land Administration	1	2
Director General, Dr. Marri Chenna Reddy, Human Resource Development Institute of Andhra Pradesh	1	2
Principal Secretary to Government	10	2
Chief Electoral Officer & Ex-officio Principal Secretary to Government	1	2
Commissioner, Commercial Taxes	1	2
Commissioners	4	2
Secretary to Government	16	2
Commissioner & Director of Sugar	1	2
Commissioner, Relief & Ex-officio Secretary to Government	1	2
Commissioner, Hand-loom	1	2
Commissioner of Rural Development	1	2
Commissioner for Panchayat Raj	1	2
Commissioner, Employment & Training	1	2
Commissioner, Women Development & Child Welfare	1	2
Commissioner of Industries	1	2
Commissioner for Sericulture	1	2
Commissioner, Tribal Welfare	1	2
Commissioner of Transport	1	2
Secretary to Governor	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Resident Commissioner A.P. Bhavan, New Delhi	1	2

Name of the Post	Number of posts	Minimum tenure for posting (in years)	Name of the Post	Number of posts	Minimum tenure for posting (in years)
Commissioner of Endowments	1	2	Chief Rationing Officer	1	2
Commissioner for Cooperation & Registrar of Cooperative Societies	1	2	Director of Distilleries and Breweries and Addl. Secretary to Commissioner of Excise	1	2
Commissioner of Labour	1	2	<b>Total</b>	<b>170</b>	
Commissioner for Departmental Inquiries	1	2	<b>2. Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above</b>		<b>68</b>
Commissioner-cum-Director, Municipal Administration	1	2	<b>3. State Deputation Reserve @ 25% of item 1 above</b>		<b>42</b>
Joint Commissioner of Excise (Enforcement)	1	2	<b>4. Training Reserve @ 3.5% of item 1 above</b>		<b>6</b>
Addl./Joint/Deputy Secretaries to Government	29	2	<b>5. Posts to be filled by Promotion (not exceeding 33-1/3% of item 1, 2, 3 and 4 above)</b>		<b>95</b>
Secretary to Chief Commissioner, Land Administration	2	2	<b>6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of item 1 above</b>		<b>28</b>
Addl./Joint Secretary to Chief Commissioner, Land Administration	1	2	<b>7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (items 1+2+3+4+6-5)</b>		<b>219</b>
Collectors and District Magistrates	23	2	<b>Direct Recruitment Posts</b>		<b>219</b>
Special Collectors	2	2	<b>Promotion Posts</b>		<b>95</b>
Special Officer and Competent Authority, Urban, Land Ceilings	1	2	<b>Total Authorised Strength</b>		<b>314"</b>
Joint Collector	23	2	[F. No. 11031/01/2002-AIS-II] CHAITANYA PRASAD, Director (Services) Note: The principal regulations were published in the Gazette of India <i>vide</i> No. SRO 3350 dated 22-10-1955 and subsequently amended <i>vide</i> GSR numbers and dates :—		
Deputy Commissioner (Excise)	1	2			
Secretary to Commissioner (Excise)	1	2	S.No.	GSR Nos.	Date
Secretary, Andhra Pradesh Public Service Commission	1	2	1.	663	29-06-1974
Director of Civil Supplies	1	2	2.	1201	16-11-1974
Director, Tourism	1	2	3.	94	25-01-1975
Project Officer, Integrated Tribal Development Agency/Project	21	2	4.	433	05-04-1975
Director, District Rural Development Agency/Chief Executive Officer, Zilla Parishad			5.	51E	01-02-1977
Director of Settlement, Survey and Land Records	1	2	6.	544E	29-07-1977
Director of Social Welfare	1	2	7.	44	14-01-1978
Joint Commissioner (Commercial Taxes)	1	2	8.	46	14-01-1978
Deputy Commissioner (Commercial Taxes)	2	2	9.	846	14-07-1978
Secretary to Commissioner (Commercial Taxes)	1	2	10.	1237	14-10-1978
			11.	289E	10-05-1979
			12.	616	24-07-1972
			13.	412	07-06-1986
			14.	765	20-09-1986
			15.	646	02-09-1989
			16.	647	02-10-1990
			17.	755E	15-12-1993
			18.	573E	13-07-1994
			19.	319E	31-03-1995
			20.	304	22-07-1997
			21.	171	09-05-2000